



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



सितंबर 2021

प्रगति का एक व्यस्त महीना

Ajax Pickering Hospital में फिलहाल निर्माणाधीन नए दीर्घ-कालिक देखभाल होम के निर्माण के नौ महीने पूरे हो चुके हैं और निर्माण का काम तीव्र गति से जारी है। निर्माण दल द्वारा इमारत को भावी निवासियों, परिवारों और टीम के सदस्यों के लिए एक आरामदेह स्थान बनाने का काम जारी रखने के दौरान सितंबर का महीना बहुत व्यस्त रहा है।

होम का ढांचा अब बन कर तैयार हो चुका है और अब हम आंतरिक और बाहरी प्रोजेक्टों और फिनिशिंग करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसे कि, इस महीने एलेवेटर लगाने शुरू हो गए हैं, और कार्यदल द्वारा घर की छत डालने और बाहरी सड़क नेटवर्क के कुछ कर्बों पर कंक्रीट डालने का काम जारी है।

बाहरी पैनल लगाने का काम भी चालू है और इस फॉल तक पूरा हो जाएगा। यह आगे बढ़ने की दिशा में एक रोमांचक कदम है, क्योंकि इस पैनल डिज़ाइन से इमारत और ज्यादा होम जैसी लगने लगेगी।

होम की अविश्वसनीय प्रगति अधिकतर रूप से, Ontario सरकार के Accelerated Build Pilot Program के कारण हुई है। प्रांतीय सरकार, PCL Construction, और Infrastructure Ontario की साझेदारी में, एकीकृत मॉड्यूलर निर्माण, समय सारिणी, नई तकनीकी प्रक्रियाओं, त्वरित प्रबंधों और अस्पताल की ज़मीन के प्रयोग की बदौलत नया दीर्घकालिक देखभाल होम पारंपरिक निर्माण की तुलना में जल्द ही पूरा हो जाएगा। 2022 की शुरुआत में पूरा हो जाने के बाद, यह Durham Region को 320 दीर्घ-कालिक देखभाल बेड्स उपलब्ध कराएगा और वरिष्ठ नागरिकों को घर कहने के लिए एक आधुनिक, सबसे नई तकनीक वाली, समृद्ध जगह मिलेगी।



सितंबर 26, 2021 को होम की छत का एक दृश्य

एक ऐतिहासिक “टॉपिंग ऑफ” समारोह

अगस्त 27 को, Lakeridge Health ने दीर्घ-कालिक होम की छठी और आखिरी मंज़िल बन जाने के उपलक्ष्य में एक “टॉपिंग ऑफ” समारोह का आयोजन किया। “टॉपिंग ऑफ” समारोह निर्माण स्थलों की एक परंपरा होती है जो यह दर्शाती है कि इमारत अपने चरम बिन्दु पर पहुँच गई है।

माननीय Rod Phillips, दीर्घ-कालिक देखभाल मंत्री और Ajax के MPP; माननीय Peter Bethlenfalvy, वित्त मंत्री और Pickering-Uxbridge के MPP; और Lorne Coe, Whitby के MPP का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने बोर्ड अध्यक्ष Sharon Cochran समेत Lakeridge Health, Infrastructure Ontario, और PCL Construction के लीडरों के साथ मिलकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। यह समारोह Lakeridge Health, उसके साझेदारों, टीम के सदस्यों और पूरे Durham Region के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि इसका यह अभिप्राय है कि Ontario 30,000 अति-आवश्यक नए दीर्घकालिक देखभाल बेड देने और Durham Region के वरिष्ठ नागरिकों को 320 नए बेड देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका है।



मंत्री Phillips होम के निर्माण में योगदान देने वाले सैंकड़ों निर्माण कर्मचारियों का अभिनंदन करने के लिए हार्ड हैट पर हस्ताक्षर करते हुए। Lakeridge Health की प्रेसीडेंट और CEO Cynthia Davis देखते हुए।



बारं से दाएं: Todd Craigen, प्रेसीडेंट, Eastern Canada, PCL Constructors Canada Inc.; Sharon Cochran, अध्यक्ष, ट्रस्टी बोर्ड, Lakeridge Health; Lorne Coe, MPP, Whitby; Peter Bethlenfalvy, वित्त मंत्री; Rod Phillips, दीर्घ-कालिक देखभाल मंत्री; और Cynthia Davis, प्रेसीडेंट और CEO, Lakeridge Health, Ajax Pickering Hospital में दीर्घ-कालिक देखभाल होम के सामने “topping off (टॉपिंग ऑफ)” समारोह के दौरान।

नया दीर्घ-कालिक देखभाल होम खबरों में

Daily Construction News ने “topping off (टॉपिंग ऑफ)” समारोह को, [Topping off ceremony held at Ajax Pickering Hospital](#) नामक स्टोरी में पेश किया।

[Health 180 with Carion Fenn](#) के हाल के एपिसोड में भी दीर्घ-कालिक देखभाल होम की तीव्र प्रगति को प्रदर्शित किया गया था। माननीय Rod Phillips, दीर्घ-कालिक देखभाल मंत्री और Ajax के MPP; Cynthia Davis, Lakeridge Health की प्रेसीडेंट और CEO; और Mark Murphy, Lakeridge Health की पूंजी योजना और विकास के वरिष्ठ निदेशक, सभी ने इस एपिसोड में भाग लिया।

इस फॉल में शुरू होने वाले काम

आने वाले फॉल में, होम की स्थायी ऊर्जा (पॉवर) सक्रिय हो जाएगी, होम का फर्श पड़ना शुरू हो जाएगा और अंदर की दीवारों को पेंट किया जाएगा। दक्षिण की ओर लगी क्रेन को ऑक्टोबर के कुछ दिनों तक प्रयोग किया जाएगा फिर स्थल से हटा दिया जाएगा।

होम के अंदर के काम की प्रगति के साथ-साथ Lakeridge Health की टीम होम के अंदरूनी हिस्से के आकार लेने के दौरान सारी ताज़ा खबरें समुदाय को देती रहेगी।



दीर्घ-कालिक देखभाल के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए हमारी निवासी ईमेल सूची में अपना नाम जोड़ें

ताज़ा जानकारी सीधे अपने ईमेल इनबॉक्स में पाना चाहते हैं? अपना नाम और ईमेल एड्रेस AjaxLTC@lh.ca पर ईमेल कर हमारी ईमेल सूची में अपना नाम जोड़ें।

आप lakeridgehealth.on.ca पर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ताज़ा खबरें प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंता है, तो कृपया **905-576-8711** एक्सटेंशन **34167** पर कॉल करें या AjaxLTC@lh.ca पर हमें ईमेल भेजें।

आप हमें Twitter और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं।